

**प्रेस नोट दिनांक 23.02.2021**  
**कोतवाली बहेडी, जनपद बरेली**

**थाना बहेडी #bareillypolice द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद कार स्विफ्ट डिजायर बरामद की गयी ।**



दिनांक 30.01.2021 को मृतक महेश कुमार पुत्र श्री बेनीराम आयु करीब 30 वर्ष नि० ग्राम सतुईया थाना पुलभट्टा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड की हत्या कर शव को थाना बहेडी, बरेली के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इटौआधुरा में फेंक दिया गया था जो दिनांक 31.01.21 को थाना बहेडी पुलिस को मिला था । उक्त सम्बन्ध में वादी श्री शिवदयाल पुत्र श्री रूपचन्द नि० ग्राम सतुईया थाना पुलभट्टा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड के द्वारा थाना बहेडी, बरेली पर मु०अ०स० 68/2021 धारा 302/201 भादवि थाना बहेडी, बरेली बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । उक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. छत्रपाल उर्फ पिन्टू पुत्र मुंशीलाल नि० ग्राम सतुईया थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड व 2. राकेश उर्फ नन्हू पुत्र नत्थू लाल नि० ग्राम सतुईया थाना पुलभट्टा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 10.02.21 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था । आज दिनांक 23.02.21 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बहेडी, बरेली के द्वारा आज मुख्य अभियुक्त छत्रपाल उर्फ पिन्टू उपरोक्त का माननीय न्यायालय से 8 घण्टे का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया गया था । पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त छत्रपाल उर्फ पिन्टू उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग न०. UK-06-AU-7389 व आला कत्ल प्लास्टिक की रस्सी, जैक व पाना जंगल मेगा फूड पार्क मुडिया मुकर्रमपुर थाना बहेडी के पास से बरामद किया गया । अभियुक्त छत्रपाल उर्फ पिन्टू उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पुनः जिला कारागार में दाखिल किया जायेगा ।

**पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु०६८ ०स०अ०/३०२ धारा २०२१/भादवि २०१ थाना बहेडीबरेली , ।

**बरामदगी –**

1. घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग न०. UK-06-AU-7389 ।
2. आला कत्ल प्लास्टिक की रस्सीजैक व पाना । ,

**पुलिस टीम:-**

1. SHO पंकज पंत
2. कासंजीव कुमार 1836 0
3. काप्रशांत कुमार 1918 0
4. काबोबी कुमार 2649 0
5. काविजयपाल सिंह 46 0

प्रभारी निरीक्षक  
थाना बहेडी जनपद बरेली ।